

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 459]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 अगस्त 2018—श्रावण 25, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2018

क्र. बी-8-8-2018-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2018 एवं रबी 2018-19 के लिये अधिसूचित की जाने वाली फसलों की अधिसूचना मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र क्र. 371, दिनांक 30 जून 2018 को प्रकाशित की गई है। सलग्न सूची अनुसार संशोधित अधिसूचना जिला रतलाम के समक्ष अंकित फसल के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

स्केल आफ फायरेंस ( ऋणमान ) खरीफ 2018

( राशि रु. में)

क्र.  
1

जिला  
रतलाम

कपास  
60000

बैठक दिनांक  
26-09-2017